



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]
No. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 1982/साघ 26, 1903
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 1982/MAGHA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1982

सा. का. नि. 62(अ) :—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 488 (अ) तारीख 19 अगस्त, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) तारीख 19 अगस्त, 1981 पृष्ठ 1477 और 1478 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें प्रारूप अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

और उक्त राजपत्र 2 सितम्बर, 1981 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 3-क में,—

(1) उप-नियम (1) में, मधु (8) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

“परन्तु मुख पोलियो वैक्सीन की बाबत निदेशक के कृत्यों का निर्वहन उप-निदेशक और उक्त संस्थान के पोलियो वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला के प्रधान द्वारा किया जाएगा।”

(2) उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा :

(3) उप-नियम (5) को उप-नियम (4) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा ।

[फा. सं. एक्स-11013/2/1981-डीएमएस एण्ड पीएफए]

आर. के. सिंघल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1982

G.S.R. 62(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published as required by section 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 488(E), dated the 19th August, 1981, at pages 1477 and 1478 of the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II-Section 3, Sub-section (i), dated the 19th August, 1981, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of ninety days from the date of publication of the draft notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 2nd September, 1981.

And whereas no objections or suggestions has been received from the public on the said draft rules ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely :—

RULES

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (1st Amendment) Rules 1982.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 3A,—

(i) In sub-rule (1), after item (8), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the functions of the Director in respect of Oral Polio Vaccine shall be exercised by the Deputy Director and Head of the Polio Vaccine Testing Laboratory of the said institute”;

(ii) Sub-rule (4) shall be omitted ;

(iii) sub-rule (5) shall be re-numbered as sub-rule (4).

[F. No. X. 11013/2/81-DMS&PFA]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy